

## गोकुला जाट

### चर्चा में क्यों?

31 जनवरी, 2022 को करिवाली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में वीर योद्धा गोकुला जाट के योगदान का उल्लेख किया।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 1669-70 में, मथुरा क्षेत्र के जाटों ने स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के पीछे धर्म मुख्य कारक था, क्योंकि शाही मुगल सरकार के स्थानीय अधिकारी अब्दुल नबी ने हट्टियों के मंदिरों को नष्ट कर दिया था और उनकी महिलाओं का अपमान किया था।
- जाट विद्रोह उस समय हुआ, जब मुगल सरकार किसी भी तरह से कमजोर या नरिबल नहीं थी। मुगल सेना ने जाटों का पीछा किया और नेता गोकुल को पकड़कर मार डाला गया। इसके बावजूद विद्रोह को पूरी तरह से दबाया नहीं जा सका।
- वदिति हो कि स्थानीय ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदानों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थलों, भवनों एवं सड़कों आदि का नामकरण उन व्यक्तित्वों के नाम पर किया जा रहा है। इसी संदर्भ में गोकुला जाट के नाम पर करिवाली में एक सड़क व चौक का भी नामकरण किया गया है।